

CURRENT AFFAIRS IN 5 MINUTES EVERYDAY

CURRENT
AFFAIRS
IN **5** MINUTES
Everyday

CURRENT AFFAIRS

(Important Questions Daily)

(01 NOVEMBER 2023)



सभी Competitive Exams के लिए Current Affairs
PDF Download करें

Current Affairs in 5 Minutes Everyday



1. पश्चिम बंगाल के किस टीचर को 'Global Teacher Award' मिला है? - दीप नारायण नायक
2. अयोध्या में राम मंदिर की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? - नरेंद्र मोदी
3. किस राज्य सरकार ने 'IStart Talent Connect Portal' लॉन्च किया है? - राजस्थान
4. एशियाई पैरा खेलों में एक ही सत्र में दो गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई? - तीरंदाज शीतल देवी
5. किस पैनल ने पाठ्यपुस्तकों में इंडिया की जगह 'भारत' लिखने का सुझाव दिया है? - NCERT
6. भारत के किस खिलाड़ी ने एशियाई पैरा खेलों में 50 मीटर राइफल्स SH-1 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? - सिद्धार्थ बाबू
7. WHO ने किसे अपने टीबी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? - सारंग देव

8. लद्दाख के सियाचिन में शहीद हुए देश के पहले अग्निवीर कौन रहे? - **गावते अक्षय लक्ष्मण**
9. किस मंत्रालय के द्वारा “कस्तूरी कॉटन भारत” नामक वेबसाइट लॉन्च की गई है? - **कपड़ा मंत्रालय**
10. भारत 5G नेटवर्क के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर पहुंचा गया है? - **तीसरे**
11. 'Forest Fire and Certification' पर UN फोरम की मेजबानी कौन-सा देश कर रहा है? - **भारत**
12. अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है जो भारत आए हैं? - **राफेल ग्रॉसी (अर्जेंटीना)**
13. 67वां 'धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस' कहाँ मनाया गया? - **नागपुर**
14. किस देश में दुनिया का पहला AI सुरक्षा संस्थान बनेगा? - **ब्रिटेन**

15. केंद्र सरकार ने प्रमुख उर्वरकों पर कितने करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है? - 22303 करोड़ रुपए

पिछले प्रश्न का उत्तर - किस देश की कैबिनेट ने भारत और अन्य छः देशों के यात्रियों को मुफ्त वीजा देने की घोषणा की है? - **श्रीलंका**

आज का प्रश्न - किस पैरालिंपिक भाला फेंक खिलाड़ी ने 73.29 मीटर भाला फेंक कर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है?

CURRENT AFFAIRS IN 5 MINUTES EVERYDAY

CURRENT
AFFAIRS
IN **5** MINUTES
Everyday

CURRENT AFFAIRS (Important Questions Daily)



सभी Competitive Exams के लिए Current Affairs
PDF Download करें



Current Affairs in 5 Minutes Everyday